

कर्नाटक  सरकार

जिला पंचायत रामनगर

उपनिर्देशक सार्वजनिक शिक्षा विभाग रामनगर जिला, रामनगर.

तृतीय भाषा हिंदी
हिंदी वल्लरी - दसवीं कक्षा

आशा दीप

10th STANDARD - HINDI

PASSING PACKAGE

2018-2019



अध्यक्ष :

श्री गंगमारेगौडा

उपनिर्देशक सार्वजनिक शिक्षा विभाग (शासन विभाग)

रामनगर जिला, रामनगर.

मार्गदर्शक :

श्री सोमलिंगय्या पी

शिक्षणाधिकारी, सा.शि. विभाग रामनगर जिला.

रचना समिति :

श्री संजयकुमार गणपति राठोड

हिंदी शिक्षक (एम.ए बी.एड)

**सरकारी हाईस्कूल बाचेनहट्टी,
मागडी तहसील, रामनगर जिला.**

मोबाईल सं : 9900928668

श्री सैयद जाकीर हुसेन एस आई

हिंदी शिक्षक (एम.ए बी.एड)

**सरकारी हाईस्कूल सोगाल,
चन्नपट्टण तहसील, रामनगर जिला.**

मोबाईल सं : 9591111029

श्रीमती अंबुजा आर

हिंदी शिक्षिका (एम.ए बी.एड)

**सरकारी हाईस्कूल उय्यंबल्ली,
कनकपुर तहसील, रामनगर जिला.**

मोबाईल सं : 9886813441

श्रीमती शीला एच वी

हिंदी शिक्षिका (एम.ए बी.एड)

**सरकारी हाईस्कूल बिलगुंबा,
रामनगर तहसिल और जिला.**

मोबाईल सं : 9916512794

श्रीमती गायत्री एस भट्ट

हिंदी शिक्षिका (एम.ए बी.एड)

**सरकारी हाईस्कूल हनुमंतनगर
रामनगर तहसिल और जिला.**

मोबाईल सं : 776003929

दसवा कक्षा तृतीय भाषा हिदा [61 H]
X Standard Third Language Hindi [61 H]
आधार-पत्रक के लिए प्रश्न-पत्र का अभिकल्प
Question Paper Design for Blue Print

उद्देश्यों की दृष्टि से अंकभार - Weightage to Objectives : -

उद्देश्य	अंक	प्रतिशत
स्मरण रखना	16	20%
समझना	36	45%
अभिव्यक्ति	25	31%
रसग्रहण	03	4%
कुल	80	100%

विषय-वस्तु की दृष्टि से अंकभार - Weightage to Contents : -

विषय-वस्तु	अंक	प्रतिशत
गद्य	32	40%
पद्य	20	25%
व्याकरण	08	10%
रचना	16	20%
पूरक वाचन	04	05%
कुल	80	100%

प्रश्न-प्रकार की दृष्टि से अंकभार - Weightage to Types of Question : -

प्रश्न-प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक	प्रतिशत	
वस्तुनिष्ठ	1. बहुविकल्पीय	08	08	10%
	2. अनुरूपता	04	04	05%
	3. जोड़कर लिखना	04	04	05%
अति लघूत्तर		14	14	17.5%
लघूत्तर	1. दो अंकवाले	11	22	27.5%
	2. तीन अंकवाले	04	12	15%
दीर्घोत्तर	1. चार अंकवाले	04	16	20%
कुल		49	80	100%

कठिनता की स्तर की दृष्टि से अंकभार - Weightage to Difficulty Level : -

कठिनता की स्तर	अंक	प्रतिशत
सरल	24	30%
सामान्य	40	50%
कठिन	16	20%
कुल	80	100%

1. मातृभूमि

(इस कविता में अभिव्यक्ति के एक प्रश्न तीन अंक के लिए आएगा । या एक अंक के एक प्रश्न और दो अंक के एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है।)

I. इस प्रश्न का उत्तर तीन या चार वाक्यों में लिखिए :

1) मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है ? स्पष्ट किजिए ।

मातृभूमि अमरों की जननी है। उसके हृदय में गांधी, बुद्ध और राम समाहित है । माँ के एक हाथ में न्याय पताका तथा दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है । इस प्रकार मातृभूमि का स्वरूप सुशोभित है ।

2) भारत माँ के प्राकृति-सौंदर्य का वर्णन कीजिए ।

भारत माता के खेत हरे - भरे हैं, भारत के वन उपवन फल - फूलों से भरे हुए हैं। भारत भूमी के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है । भारत माता सुख - संपत्ति, धन - धाम को मुक्त - हस्त से बाँट रही है ।

जोड़कर लिखिए :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1) तेरे उर में शायित | गांधी, बुद्ध और राम |
| 2) फल - फूलों से युत. | वन - उपवन |

2. कश्मीरी सेब

(इस पाठ में समझना के एक प्रश्न अनुरूपता में एक अंक के लिए, और समझना के एक प्रश्न दो अंक के लिए है । या एक अंक के एक प्रश्न और दो अंक के एक प्रश्न या तीन अंक के लिए भी पूछा जा सकता है ।)

I. अनुरूपता :

- | | | | |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| 1) केला | : पीला रंग. | :: सेब. | : गुलाब रंग |
| 2) सेब | : फल. | :: गाजर | : सब्जि |
| 3) नागपुर | : संतरा | :: कश्मीर. | : सेब |
| 4) कपडा | : नापना | :: टोमाटो | : तोलना |

5) सेब बेचनेवाला : बेईमान निकला :: रेवडी बेचनेवाला : ईमान निकला

II. इन प्रश्नों का उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए :

1) कश्मीरी सेब पाठ से आप को क्या सीख मिलती है ?

कश्मीरी सेब पाठ से यह सीख मिलती है कि - अगर खरिदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है, इसलिए सचेत रहना चाहिए ।

2) आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है ?

आजकल शिक्षित समाज में विटमिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है ।

3) सेब के हालत के बारे में लिखिए ?

लेखक ने सुबह नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला, तो सड़ा हुआ था । एक रुपए के आकार का छिलका गल गया था । दूसरा निकाला मगर वह आधा सड़ा हुआ था । तीसरा सेब निकाला वह सड़ा तो न था; मगर एक तरफ दबकर बिलकुल पिचक गया था । चौथा देखा । वह यों तो बेदाग था; मगर उसमें एक काला सुराख था । काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे, जैसे बेर में होते हैं । एक सेब भी खाने लायक नहीं था ।

4) दूकानदार ने लेखक से क्या कहा ?

दूकानदार ने लेखक से कहा बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के आप ले जाएँ, खाकर तबीयत खुश हो जायेगी ।

5) दूकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा ?

दूकानदार ने अपने नौकर से कहा - सुनो, आधा सेर कश्मीरी सेब चुन - चुनकर निकाल लाओ ।

3. गिल्लू

(इस पाठ में समझना के एक प्रश्न अनुरूपता में एक अंक के लिए, और समझना के एक प्रश्न दो अंक के लिए है । या एक अंक के एक प्रश्न और दो अंक के एक प्रश्न या तीन अंक के लिए भी पूछा जा सकता है ।)

I. अनुरूपता :

1) 1907 : महादेवी वर्मा जी का जन्म :: 1987 : महादेवी वर्मा जी का मरण

2) गुलाब : पौधा :: सोनजूही : लता

3) हंस : सफेद :: कौआ : काला

4) बिल्ली : म्याऊँ - म्याऊँ :: गिल्लू : चीक-चीक

- 5) कोयल : मधुर स्वर :: कौआ : कर्कश स्वर
 6) बसंत की सच्चाई : ईमानदारी की सीख :: गिल्लू : प्राणी दया की सीख
 7) कश्मीरी सेब : प्रेमचंद :: गिल्लू : महादेवी वर्मा
 8) ईमानदारों के सम्मेलन मे : व्यंग्य साहित्य :: गिल्लू : रेखाचित्र

II. इन प्रश्नों का उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए :

- 1) लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था ?
 लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू वह लेखिका के पैर तक आकर सर् से परदे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता था। उसका यह क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका गिल्लू को पकड़ने के लिए न उठती।
- 2) लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखायी पड़ी ?
 लेखिका को गिलहरी गमले और दीवार की संधि में छिपी पड़ी थी। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघुप्राण के लिए बहुत थे। इसलिए वह निश्चेष्ट - सा गमले से चिपका पड़ा था।
- 3) लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाये ?
 गिल्लू को कौए की चोंच का घाव हुआ था, वह उसे हौले से उठा कर अपने कमरे में लायी फिर रूई से रक्त पोंछकर घावों पर पेन्सिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुँह में एक बूँद पानी टपकाया गया। इस प्रकार लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाये।
- 4) गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजरी में दिन कैसे बिताये ?
 गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजरी में जब उसके कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य काजू को कम खाता रहता था।
- 5) गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए।
 जब गिल्लू घायल हुआ तब उस पर रूई से रक्त पोंछकर पेन्सिलिन का मरहम लगाया। रहने के लिए झूला बनाकर उसे गिल्लू नाम से पुकारा। गिल्लू को खाने के लिए काजू तथा बिस्कुट दिया, थाली में से एक - एक चावल उठाकर खाने को सिखाया। अन्य गिलहरियों के साथ खेलने के लिए व्यवस्था की, गिल्लू के अंतिम दिनों में उसे बचाने की पूरी कोशिश भी की और उसकी मृत्यु के बाद समाधि भी बनायी गयी। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू के प्रति अपनी ममता को दर्शाया है।

4. अभिनव मनुष्य

(इस कविता में स्मरण के एक प्रश्न एक अंक के लिए और समझना के एक प्रश्न दो अंक के लिए है । या एक अंक के एक प्रश्न और दो अंक के एक प्रश्न या तीन अंक के लिए भी पूछा जा सकता है ।)

I. इन प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए :

1) आज की दुनिया कैसी है ?

आज की दुनिया विचित्र और नवीन है ।

2) मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है ?

मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है ।

3) परमाणु किसे देखकर काँपते हैं ?

परमाणु मनुष्य के करों को देखकर काँपते हैं ।

4) आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पायी है ?

आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पायी है ।

5) नर किन - किन को एक समान लाँघ सकता है ?

नर नदी, गिरि और सागर को एक समान लाँघ सकता है ।

II. इन प्रश्नों का उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए :

1) दिनकरजी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है ? (अथवा)

दिनकरजी ने 'अभिनव मनुष्य को क्या संदेश दिया है ?

दिनकरजी के अनुसार मानव का सही परिचय, जो मनुष्य बुद्धि को चैतन्य हृदय से जीतता है । जो मानव दूसरे मानव का रिस्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होता है । सभी मानवों से स्नेह का बाँद बाँधना मानव की सिद्धी है।

2) 'प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन'-- इस पंक्ति का आशय समझाइए । (अथवा)

दिनकरजी ने आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कैसे किया है ?

'प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन'-- इस पंक्ति का आशय यह है कि -

(दिनकरजी ने आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन इस प्रकार किया है कि -)

आज मनुज प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाया है, प्रकृति के हर तत्व को अपने वश में कर लिया है । प्रकृति में पानी, पवन, विद्युत सब पर मनुष्य ने अपना अधिकार स्थापित किया है ।

5. मेरा बचपन

(इस पाठ में समझना के एक प्रश्न एक अंक के लिए और स्मरण के एक प्रश्न दो अंक के लिए है । या एक अंक के एक प्रश्न और दो अंक के एक प्रश्न या तीन अंक के लिए भी पूछा जा सकता है ।)

I. इन प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए :

1) अब्दुल कलाम जी का बचपन कैसे बीता ?

अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता ।

2) अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे ?

अब्दुल कलाम जी बचपन में पुश्तैनी घर में रहते थे ।

3) अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी ?

अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु पुस्तक थी ।

4) अब्दुल कलाम के चचेरे भाई कौन थे ?

अब्दुल कलाम के चचेरे भाई शम्सुद्दीन थे।

5) कलाम और जलालुद्दीन किस विषय पर बात करते थे ?

कलाम और जलालुद्दीन आध्यात्मिक विषयों पर बात करते थे ।

II. इन प्रश्नों का उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए :

1) आशियम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या - क्या देती थी ?

आशियम्मा जी अब्दुल कलाम के सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उसपर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट साँबार देती साथ में घर का बना आचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी देती थी ।

2) जैनुलाबदीन नमाज के बारे में क्या कहते थे ?

जैनुलाबदीन नमाज के बारे में कहते थे कि - 'जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो ; जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म - पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता' ।

3) अब्दुल कलामजी का जन्म कहाँ हुआ ?

अब्दुल कलामजी का जन्म मद्रास राज्य (अब तमिलनाडु) के रामेश्वरम् कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ ।

4) कलाम जी का बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में कैसे बीता ?

इनके पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो - आरामवाली चीजों से दूर रहते थे । पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। इस लिए अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता - भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से ।

5) शम्सुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे ?

शम्सुद्दीन रामेश्वरम् में अखबारों के एक मात्र वितरक थे। इस अखबार एजेंसी को अकेले शम्सुद्दीन ही चलाते थे। अखबार रामेश्वरम् स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुँचते थे । जो पामबन से आती थी। रामेश्वरम् में अखबारों की जुमला एक हजार प्रतियाँ बिकती थी । इस तरह वे अखबारों के वितरण का कार्य करते थे ।

6. बसंत की सच्चाई

(इस पाठ में समझना के एक प्रश्न एक अंक के लिए और अभिव्यक्ति के एक प्रश्न तीन अंक के लिए है । या चार अंक के लिए भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है ।)

1. इन प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए :

1) बसंत राजकिशोर से बार - बार विनती क्यों कर रहा था ?

सबरे से अब तक बटन, दियासलाई, छलनी कुछ नहीं बिका था । इसलिए बसंत राजकिशोर से कुछ चीजे खरीदने के लिए बार - बार विनती कर रहा था ।

2) बसंत क्या - क्या बेचता था ?

बसंत बटन, दियासलाई और छलनी बेचता था ।

3) पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे ?

पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे ।

4) बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे ?

बसंत और प्रताप भीखू अहीर के घर में रहते थे ।

5) पं. राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण क्या है ?

पं. राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण ईमानदारी / प्रामाणिकता है।

II. इन प्रश्नों का उत्तर तीन या चार वाक्यों में लिखिए :

1) बसंत स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का था । कैसे ?

बसंत स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का था । वह मेहनत से पैसा कमाना चाहता था । इसलिए पं. राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार किया । जब वह नोट भुनाने गया तब लौटते समय मोटर के नीचे आ गया और बुरी तरह से घायल होने पर भी वह अपने भाई प्रताप को पैसे लौटाने के लिए राजकिशोर के घर भेजता है । इससे पता चलता है कि बसंत ईमानदार लड़का है ।

2) पं राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए।

पण्डित राजकिशोर मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़नेवाले नेता थे। गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखानेवाले व्यक्ति थे। बसंत को सहायता करने की दृष्टि से वे उससे सामान खरीदते हैं। प्रताप से बसंत की मोटर दुर्घटना के बारे में पता चलते ही उस के घर पहुँचते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल पहुँचाने का प्रबंध करते हैं। दोनों भाईयो को सांत्वना देते हैं। इस प्रकार राजकिशोर की मानवीयता व्यक्त होती है।

7. तुलसी के दोहे

(इस दोहे में समझना के एक प्रश्न मिलान में एक अंक के लिए और रसग्रहण के एक प्रश्न भावार्थ तीन अंक के लिए है । (विकल्प कंठस्थ के लिए चार अंक के लिए पुछा जा सकता है ।)

I. जोड़कर लिखिए :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1) विश्व किन्ह. | करतार |
| 2) परिहरि वारि | विकार |
| 3) जब लग घट. | में प्राण |
| 4) सुसत्यव्रत. | राम भरोसो एक |
| 5) हंस के समान | संत के गुण |
| 6) दया का मूल | धर्म |
| 7) पाप का मूल | अभिमान |

II. निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए :

1) तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक ।

साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसो एक ॥

भावार्थ :- प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि - मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब विद्या, विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं। जो राम पर भरोसा करता है, वह साहसी, सत्यव्रत और सुकृतवान बनता है।

2) राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार ।

तुलसी भीतर बाहिरौ, जो चाहसी उजियार ॥

भावार्थ :- प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि - जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आँगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम-नाम जप ने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है।

III. कविता को कंठस्थ करके लिखिए. :

1) मुखिया मुख सों चाहिए, खान पान को एक ।

पालै पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ॥

2) तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक ।

साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसो एक ॥

3) दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ।

तुलसी दया न छाँडिये, जब लग घट में प्राण ॥

8. इंटरनेट क्रांति

(इस पाठ में समझना के एक प्रश्न अनुरूपता का एक अंक के लिए, और समझना के एक प्रश्न दो अंक के लिए है । या तीन अंक के एक प्रश्न पूछा जा सकता है ।)

I. अनुरूपता :

1) कंप्यूटर : संगणक यंत्र : : इंटरनेट. : अंतर्जाल

2) आई.टी.इंफरमेशन टेक्नोलाजी::आई.टी.ई.एस:इंफरमेशन टेक्नोलाजी एनेबल्ड सर्विसेस

3) फेसबुक : वरदान : : हैकिंग : अभिशाप

4) वीडियो कान्फरेंस : विचार - विनिमय. : : ई - प्रशासन. : पारदर्शी प्रशासन

- 5) सोशल नेटवर्किंग : साइट्स : : वर्चुअल मीटिंग : काल्पनिक सभागार
 6) ई-गवर्नेंस : सरकारी कामकाज : : फेसबुक : सोशल नेटवर्किंग
 7) आई.टी : इनफारमेशन टेक्नोलाजी : : हेच.एम.टी : हिंदुस्तान मशीन टूल्स

II. इन प्रश्नों का उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए :

- 1) व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है?

इंटरनेट द्वारा घर बैठे - बैठे खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी बिल भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट - बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितना भी रकम भेजी जा सकती है।

- 2) ई - गवर्नेन्स के बारे में समझाइए ?

ई - गवर्नेन्स द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत् लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है।

- 3) इंटरनेट का अर्थ क्या है?

इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है।

- 4) संचार और सूचना क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है।

संचार और सूचना क्षेत्र में इंटरनेट द्वारा पल भर में, ज्यादा खर्च किए बिना कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है।

- 5) "सोशल नेटवर्किंग " एक क्रांतिकारी खोज है। कैसे ? (अथवा)

सोशल नेटवर्किंग साइट्स का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ?

"सोशल नेटवर्किंग " एक क्रांतिकारी खोज है, जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशियल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे -- फेसबुक, आरकुट, ट्विटर, लिंकडिन आदि। इन साइट्स के कारण देश-- विदेश के लोगों की रहन - सहन, वेश-- भूषा, खान -पान, संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रतिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। इस प्रकार "सोशियल नेटवर्किंग " एक क्रांतिकारी खोज है।

9. ईमानदारों के सम्मेलन में

(इस पाठ में स्मरण के एक प्रश्न एक अंक के लिए और समझना के एक प्रश्न जोड़ना एक अंक के लिए है । या दो अंक के एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है ।)

I. जोड़कर लिखिए :

अ.

ब

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) ईमानदारों के सम्मेलन में | बेईमानी का पर्दाफाश |
| 2) ईमानदारों के सम्मेलन में | ईमानदारों की प्रशंसा |
| 3) ईमानदारों के सम्मेलन का | उद्घाटन शानदार से हुआ । |
| 4) ईमानदारों के सम्मेलन में | हरिशंकर परसाई |
| 5) ईमानदारों के सम्मेलन में | व्यंग्य रचना |
| 6) देश के प्रसिद्ध ईमानदार | लेखक (हरिशंकर परसाई) |

II. इन प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए :

- 1) लेखक परसाईजी को कहाँ ठहराया गया ?

लेखक परसाईजी को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया ।

- 2) लेखक दूसरे दर्ज में क्यों सफर करना चाहते थे ?

लेखक एक सौ पचास रुपये बचाने के लिए दूसरे दर्ज में सफर करना चाहते थे।

- 3) स्वागत समिति के मंत्री किसको डाँटने लगे ?

स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डाँटने लगे ।

- 4) सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन - किन को प्रेरणा मिल सकती है ?

सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिल सकती है ।

- 5) लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोये ?

लेखक पहनने के कपड़े को सिरहाने दबाकर सोये ।

- 6) लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था ?

लेखक ने धूप का चश्मा कमरे की टेबुल पर रखा था ।

- 7) परसाई जी को सम्मेलन में क्यों बुलाया गया था ?

परसाई जी को सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था ।

8) फूल मालाएँ मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे?

फूल मालाएँ मिलने पर लेखक सोचने लगे कि - " आस-पास कोई माली होता तो फूल मालाएँ भी बेच लेता "।

9) लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया।

लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया क्यों कि -- लेखक की चप्पलें, चश्मा, बिस्तर, और ताला तक चोरी हो गया था । सोचा की अगर मैं यहाँ रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊँगा ।

10. दुनिया में पहला मकान

(इस पाठ में स्मरण के एक प्रश्न जोड़ना एक अंक के लिए और समझना के एक प्रश्न एक अंक के लिए है । या दो अंक के एक प्रश्न पूछा जा सकता है ।)

I. जोड़कर लिखिए :

अ

- 1) सिंगफो आदिवासी
- 2) तालाब.
- 3) हाथी
- 4) भैंस.
- 5) पहला
- 6) सिंगफो
- 7) मकान की छत

ब

- पूर्वोत्तर भारत
- मछली
- पैर
- हड्डियाँ
- मकान
- आदिवासी
- मछली की पीठ जैसी ।

II. इन प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए :

- 1) सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने क्या किया ? अथवा दोस्तों ने क्या तय किया ?

सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने एक मकान बनाया । (दोस्तों ने मकान बनाने को तय किया) ।

- 2) सबसे पहले आदमी को मकान बनाना किसने सिखाया ?

सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत- से पशुओं ने सिखाया ।

3) दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले किससे हुई ?

दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई ।

4) हाथी से उत्तर पाकर दोस्त किससे मिले ?

हाथी से उत्तर पाकर दोस्त साँप से मिले ।

5) सिंगफो आदिवासी कहाँ के निवासी थे ?

सिंगफो आदिवासी पूर्वोत्तर भारत के निवासी थे ।

6) मछली ने दोस्तों के प्रश्न का क्या जवाब दिया ?

मछली ने दोस्तों के प्रश्न का जवाब दिया कि-- "आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियाँ ध्यान से देख लो । फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियाँ तोड़ लो । इन पत्तियों को छत पर उसी तरह जमा दो, जैसी मेरी पीठ पर पट्टियाँ हैं ।

11. समय की पहचान

(इस कविता में समझना के एक प्रश्न एक अंक के लिए और एक प्रश्न समझना दो अंक के लिए है । या तीन अंक के एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है ।)

1. इन प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए :

1) समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है ?

समय ईश (भगवान) का दिया हुआ अनुपम धन है ।

2) कवि के अनुसार मनुष्य को सुख कब नहीं मिलता ?

कवि के अनुसार मनुष्य को समय नष्ट करने से सुख नहीं मिलता ।

3) बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है ?

बहाने बनाने का प्रमुख कारण आलस है ।

4) समय के खोने से क्या होता है ?

समय के खोने से पछताना पड़ता है ।

5) 'समय की पहचान कविता में कवि ने किस पर विश्वास करने को कहा है ?

समय की पहचान कविता में कवि ने आत्मा पर विश्वास करने को कहाँ है ।

II. इन प्रश्नों का उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए :

1) समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं ?

आलस को छोड़कर बहाने किये बिना सही वक्त पर सही काम करना ही समय का सदुपयोग है ।

2) मनुष्य के लिए सुख की प्रप्ति कब संभव है ?

मनुष्य के लिए सुख की प्रप्ति तभी संभव है कि - जब सु समय पर जो भी कार्य करना है । उसे उसी समय में ही मन लगाकर करें तो तभी सुख प्राप्त होता है ।

12. रोबोट

(इस पाठ में समझना के एक प्रश्न जोड़ना एक अंक के लिए और एक प्रश्न समझना दो अंक के लिए है । या तीन अंक के एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है ।)

I. जोड़कर लिखिए :

अ

- 1) यह सुनकर काउंटर पर
- 2) मगर, रोबोदीप,
- 3) शाम को रोबोनिल
- 4) दोनों के बीच कुछ
- 5) सक्सेना परिवार
- 6) रोबोनिल
- 7) रोबोट

ब

- 1) बैठा रोबोट बोला
- 2) यहा तो रोबोटिकी के नियम के विरुद्ध है ।
- 3) और रोबोदीप मिले
- 4) गुप्त मंत्रणा हुई
- 5) रोबोनिल को पाकर फुला नहीं समा रहा था।
- 6) बुद्धिमान रोबोट
- 7) आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स

II. इन प्रश्नों का उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए :

1) रोबोदीप ने रोबोनिल से क्या कहा ?

रोबोदीप ने रोबोनिल से कहा कि - जानते हो रोबोनिल, तुम्हारे आने से पूर्व पहले सक्सेना परिवार में कौन काम करता था ।

2) रोबोनिल ने रोबोजीत को क्या समझाने की कोशिश की ?

कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण बने, साथ-साथ मानवीय नजरिये से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुँचे। इस बात को समझाने की कोशिश की।

3) धीरज सकसेना ने घरेलू कामकाज के लिए रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया ?

सकसेना परिवार बड़ा था। बेटे - बेटियों, नाती - पोतों से घर में हमेशा रौनक और चहल - पहल बनी रहती। साधोराम के आस्पताल पहुँच जाने से सभी की तकलीफें बढ़ गईं। धीरज सकसेना से परिवारवालों का यह दुःख नहीं देखा गया। तभी परिवार के मुखिया के नाते कोई रोबोट रखने का निर्णय लिया।

4) कहानी को टाइप करते समय रोबोनिल को क्या हुआ ?

कहानी को टाइप करते समय रोबोनिल की धात्विक और तारों भरे परिपंथवाली खोपड़ी में यकायक मानो नीली रोशनी हो गई।

5) रोबोनिल क्या - क्या काम करता था ?

रोबोनिल धीरज सकसेना के घर में सुबह नाश्ता तैयार करना, मेहमानों का स्वागत करना, घर के छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाना और होमवर्क में मदद करना तथा वर्ड प्रोसेसर पर काम करना और पालतु कुत्ते को शाम को घुमाना आदि काम करता था।

13. महिला की साहस गाथा

(इस पाठ में अभिव्यक्ति के एक प्रश्न तीन अंक के लिए है।)

1. इन प्रश्नों का उत्तर तीन या चार वाक्यों में लिखिए :

1) बिछेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की ?

बिछेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी इस प्रकार कि - वे सुबह चार बजे उठ गईं, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात् वे लगभग साढ़े पाँच बजे अपने तंबू से निकल पड़ी।

2) दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिछेंद्री के अनुभव के बारे में लिखिए।

दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गती बढ़ गई थी। उस ऊँचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इन्होंने देखा की थोड़ी दूर तक कोई ऊँची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीची चली गई है। उनकी साँस एक दम रुक सी गई थी। उन्हें लगा था कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहार के 1 बजकर 7 मिनट पर वें एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी।

3) महिला की साहस गाथा पाठ से क्या संदेश मिलता है ?

इस पाठ से हमें साहस गुण, दृढ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना इत्यादि आदर्श गुण सीखते हैं। इसके साथ हिमालय की ऊँची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं ।

4) बिछेंद्री का बचपन कैसे बीता ?

बिछेंद्री को बचपन में रोज पाँच किलोमीटर पैदल चल कर स्कूल जाना पड़ता था । बाद में पर्वतारोहण --प्रशिक्षण के दौरान उनका कठोर परिश्रम बहुत काम आया।सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ी का खर्च जुटाने लगी इस तेजा उन्होंने संस्कृत में एम,ए तथा बी,एड तक की शिक्षा प्राप्त की।

5) एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचकर बिछेंद्री ने क्या किया ?

एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचकर बिछेंद्री ने बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागरमाथे के ताज का चुंबन किया । दुर्गा माँ का चित्र को पूजा करके लाल कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया ।

14. सूर – श्याम

(इस पद में समझना के एक प्रश्न अनुरूपता एक अंक के लिए और समझना के एक प्रश्न दो अंक के लिए है।)

I. अनुरूपता :

- 1) रामभक्तिशाखा : तुलसीदास : : कृष्णभक्तिशाखा : सूरदास
- 2) गोर रंग : यशोदा : : काला रंग : कृष्ण
- 3) बलभद्र : बलराम : : कान्ह : कृष्ण
- 4) जसोदा : माता : : नंद : पिता
- 5) रीझना : मोहित होना : : खिजाना : : चिढ़ाना
- 6) बलबीर : बलराम : : जसोदा : यशोदा
- 7) मातृभूमी : प्रकृति का वर्णन : : सूर - श्याम : बाल लीला का वर्णन
- 8) मातृभूमी : कविता : : सूर - श्याम : पद

II. इन प्रश्नों का उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए :

1) बाल कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता ?

भाई बलराम कृष्ण को बहुत चिढ़ाता है कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया गया है। इसी गुस्से के कारण कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाना चाहता ।

2) बालकृष्ण अपनी माता से क्या - क्या शिकायतें करता है ?

बालकृष्ण अपनी माता से शिकायत करता है कि बलराम बहुत चिडाता है तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है । बल्कि मोल लिया गया है । नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन तुम काले हो ।

3) यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है ?

हे कृष्ण ! सुनो। बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो । कहकर कृष्ण के क्रोध को शांत करती है ।

4) कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है ?

कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति नाराज है क्यों कि-- माँ, तुमने केवल मुझे ही मारना सीखा है और भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती ।

15. कर्नाटक संपदा

(इस पाठ में अभिव्यक्ति के एक प्रश्न चार अंक के लिए है ।)

I. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पाँच या छः वाक्यों में लिखिए :

1) कन्नड भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है?

कर्नाटक के साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवण्ण क्रांतिकारी समाज सुधारक थे । अक्कमहादेवी, अल्लमप्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है । पुरंदरदास, कन्नकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाये हैं । पम्प, रन्न, पोन्न, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि ने महान् काव्यों की रचना कर कन्नड साहित्य तथा संस्कृति को समृद्ध बनाया है।

2) कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए. ?

प्रकृतिमाता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से सँवारकर सुन्दर और समृद्ध बनाया है कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण में उत्तर के छोर तक फैली लम्बी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सहयाद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतमालाएँ शोभायमान हैं।

3) कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला का परिचय दीजिए ।

कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लु में जो मंदिर हैं उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है । बेलूर, हलेबीडू, सोमनाथपुर के मंदिरों में जो पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं, वे सजीव लगती हैं। श्रवणबेलगोला में 57 फूट ऊँची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है ।

4) कर्नाटक के किन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है ?

कुवेंपु, द,रा,बैन्दे, शिवराम कारंत, मास्ति वेंकटेश अय्यंगार, वि,कृ, गोकाक, यू,आर, अनंतमूर्ती, गिरीश कार्नाड, चंद्रशेखर कंबार, आदी कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है।

5) बाँध और जलाशयों के क्या उपयोग हैं ?

कावेरी, कृष्ण,तुंग भद्रा नदियों पर बाँध बनाये गये हैं । इनसे हजारों एकड़ जमीन सींची जाती है। इसके अलावा इन नदियों की जलाशयों की सहायता से ऊर्जा--उत्पादन केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं ।

6) कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंशों के नाम लिखिए ?

कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंशों के नाम हैं - गंग, कदंब राष्ट्रकूट, चालुक्या, होयसल, ओडेयर, आदी हैं।

16. बाल – शक्ति

(इस पाठ में स्मरण के एक प्रश्न दो अंक के लिए है ।)

1. इन प्रश्नों का उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए :

1) गाँव की सफाई के लिए बालक क्या काम करते हैं ? अथवा

‘बाल शक्ति’ टोली ने गाँव की सफाई के लिए क्या - क्या काम किया ?

रोज एक घंटा गाँव की सफाई में लगना। गड्डे को मिट्टी से टापना। कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाना। गाँव के चारों तरफ पेड़ - पौधे लगाने का काम करते हैं।

2) गाँव को आदर्श गाँव कैसे बनाया जा सकता है ?

बच्चों को स्कूल जाने का प्रेरणा और व्यवस्था करना। गाँव को साफ सुथरा रखना । गाँव को हरा - भरा रखने के लिए गाँव के चारों तरफ पेड़ - पौधे लगाकर बाल - शक्ति के कारण एक आदर्श गाँव बना सकते हैं।

17. कोशिश करनेवालों की हार नहीं होती

(इस कविता में स्मरण के एक प्रश्न चार अंक के लिए है ।)

I. कविता को कंठस्थ करके लिखिए. :

असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो,
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम,
संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम।
कुछ किए बिना ही जय - जयकार नहीं होती,
कोशिश करनेवालों की कभी हार नहीं होती ।

पूरक वाचन - शनि : सबसे सुंदर ग्रह

(इस पाठ में स्मरण के एक प्रश्न दो अंक के लिए है। (इसमें एक प्रश्न विकल्प दिया जाएगा)

I. इन प्रश्नों का उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए :

1) शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है ? अथवा

शनि ग्रह का वायु मंडल किन गैसों से बना है ?

शनि का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिय गैसों से बना है।

2) सौर - मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन - सा है ? उसमें शनि ग्रह का स्थान क्या है?

सौर - मंडल का सबसे बड़ा ग्रह वृहस्पति है। उसमें शनि ग्रह का स्थान दूसरा बड़ा ग्रह है।

3) शनि किसका पुत्र है ? 'शनैःचर' का अर्थ क्या है ?

शनि सूर्य का पुत्र है । 'शनैःचर' का अर्थ है - धीमी गति से चलनेवाला ।

4) शनि एक अत्यन्त ठंडा ग्रह है कैसे ?

शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब दस गुना अधिक दूर है। बहुत कम सूर्यताप उस ग्रह तक पहुँचता है - पृथ्वी का मात्र सौवाँ हिस्सा । शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150⁰ सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसलिए शनि एक अत्यन्त ठंडा ग्रह है ।

पूरक वाचन - सत्य की महिमा
नागरिक के कर्तव्य

(इस दो पूरक वाचन में समझना के एक प्रश्न दो अंक के लिए है। (इसमें एक प्रश्न विकल्प दिया जाएगा)

1. इन प्रश्नों का उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए :

1) महात्मा गाँधी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है ? अथवा झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है ?

"सत्य एक विशाल वृक्ष है । उसका जितना आदर किया जाता है, उतने ही फल उसमें लगते हैं। "सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए । झूठ बोलनेवालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है। उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं।

2) शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है ?

शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका 'सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात्, सत्यमप्रियम्' अर्थात्, सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। 'इस प्रकार समझाया गया है ।

3) 'सत्य' क्या होता है ? उसका रूप कैसा होता है ?

सत्य! बहुत ही भोला - भाला, बहुत ही सीधा - सादा जो कुछ भी अपनी आँखों से देखा, बिना नमक - मर्च लगाए बोल दिया - यही तो सत्य है । कितना सरल ! सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञानकी प्रतिलिपी है, आत्मा की वाणी है।

4) नागरिकों के कोई तीन कर्तव्य के बारे में बताइए ?

- * एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्र गान, राष्ट्रिय त्योहार आदि का आदर करना सीखना चाहिए ।
- * अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है ।
- * देश के प्रति गौरव का भाव रखना एवं देश की एकता और अखंडता को कायम रखना हमारा कर्तव्य है । यह नागरिकों के तीन कर्तव्य है ।

कन्नड़ में अनुवाद कीजिए :

- 1) गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी ।
गञ्जरी ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು.
- 2) दुकानदार ने कहा—बड़े मजेदार सेब आये हैं ।
ಬಹಳ ರುಚಿಯಾದ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಎಂದು ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳಿದ
- 3) एक सेब भी खाने लायक नहीं।
ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ.
- 4) दूकानदार ने मुझसे क्षमा माँगी।
ಅಂಗಡಿಯವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ.
- 5) बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया।
ಬಹಳ . ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ.
- 6) गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था।
ಗಿಲ್ಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿತ್ತು.
- 7) दिन भर गिल्लू ने न कुछ खाया, न बाहर गया।
ದಿನವಿಡೀ ಗಿಲ್ಲು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಹೊರಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ.
- 8) गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू था ।
ಗೊಡಂಬಿ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಪ್ರಿಯ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು.
- 9) उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है ।
ಅದರ ವಯಸ್ಸು ಸರಿಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು.
- 10) सबरे से अब तक कुछ नहीं बिका ।
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈಗಿನವರೆಗೂ ಏನೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿಲ್ಲ.
- 11) मैं भीख नहीं लूँगा ।
ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
- 12) बड़ी मुश्किल से बसंत को घर ले गए ।
ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಸಂತನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು.
- 13) बसंत ओठ भींचकर आह खींचता है ।
ಬಸಂತ ತುಟಿ ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ನರಳುತ್ತಿದ್ದನು.
- 14) यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है ।
ಇವನು ಬಡವನಾಗಿದ್ದರೂ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣವಿದೆ.
- 15) इंटरनेट आधुनिक जीवनशैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है।
ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.

- 16) इंटरनेट द्वारा घर बैठे-बैठे खरिदारी कर सकते हैं ।
ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು.
- 17) इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं।
ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- 18) हम आपको आने--जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे।
ನಾವು ತಮಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.
- 19) स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ।
ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತಿಯಾದ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು.
- 20) देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारना चाहिए।
ನೋಡಿ, ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದು.
- 21) भैंस ने दोस्तों को पंजर दिखाया ।
ಎಮ್ಮೆಯು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ತೋರಿಸಿತು.
- 22) साँप ने कहा, ' आगे की बात मैं नहीं जानता '।
ಹಾವು ಹೇಳಿತು ಮುಂದಿನ ಮಾತು(ವಿಷಯ) ನಾನು ತಿಳಿಯಲಾರೆ.
- 23) तालाब में एक बड़ी मछली तैर रही थी।
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಈಜುತ್ತಿತ್ತು.
- 24) बिछेंद्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था ।
ಬಿಚ್ಛೆಂದ್ರಿಯವರ ಜನ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಾಯಿತು.
- 25) बिछेंद्री को रोज पैदल चलकर स्कूल. जाना पड़ता था ।
ಬಿಚ್ಛೆಂದ್ರಿಯವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
- 26) मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है।
ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು ಯಶಸ್ಸು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಿದೆ.
- 27) मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचनेवाली प्रथम भारतीय महिला थी ।
ನಾನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ತುತ್ತತುದಿಯ ಮೇಲೆ ಏರಿದ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದೆ.
- 28) कर्नाटक में चंदन के पेड विपुल मात्रा में हैं।
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಗಿಡಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿದೆ.
- 29) वचनकार बसवण्णा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे ।
ವಚನಕಾರ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿದ್ದರು.

गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1) सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव है। मानव की जिज्ञासावृत्ति उसे पशुओं से भिन्न करती है। प्रकृति के रहस्यों को खोजने, उन्हें उपयोग में लाकर जीवन को सुखमय बनाने और ज्ञान विस्तार के मूल में उसकी जिज्ञासा ही है। अपनी जिज्ञासा से उसे यह लाभ मिलता है। मानव में एक विशेष गुण और है, वह है- सौंदर्यानुभूति, मानव सृष्टि के समस्त चराचरों में अपने इसी गुण से अच्छी और खराब वस्तुओं में भेद कर सकता है। अपने इस विवेक से ही मनुष्य ने ललित कलाओं का विकास भी किया है।

प्रश्न:-

- 1) मानव पशुओं से कैसे भिन्न है ?
- 2) जिज्ञासा से मानव को क्या लाभ है ?
- 3) मानव का विशेष गुण क्या है ?
- 4) अपने विवेक से मानव क्या कर सका है ?

2) हम अच्छी चाल-चलन को चरित्र कह सकते हैं। जिसकी चाल-चलन अच्छी है वह चरित्रवान है। गाँधीजी ने एक बार कहा था कि *धन गया* तो कुछ नहीं गया, *स्वास्थ्य गया* तो कुछ गया, *मगर चरित्र गया* तो सब कुछ गया। इसका अर्थ है चरित्र ही मनुष्य की असली संपत्ति है। चरित्र का निर्माण करना समाज और राष्ट्र का निर्माण करना पहला कर्तव्य है। शिक्षा का असली उद्देश्य चरित्र का निर्माण है।

प्रश्न:-

- 1) हमारी चाल-चलन को क्या कहते हैं ?
- 2) चरित्र के महत्ता के बारे में किसने कहा था?
- 3) मनुष्य की असली संपत्ति क्या है?
- 4) चरित्र का निर्माण किसका असली उद्देश्य है?

3) भारतीय ध्वज में तीन रंग हैं। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। इस में चौबीस तीलियाँ हैं। तिरंगा ध्वज देश का शान है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के नीचे हिन्दी भाषा में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है।

- प्रश्न:-
- 1) भारतीय राष्ट्र ध्वज में कितने रंग हैं ?
 - 2) अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ हैं ?
 - 3) सफेद रंग किसका प्रतीक है ?

4) अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा हुआ है ?

व्याकरण भाग

८ अंक

(व्याकरण में स्मरण के तीन प्रश्न तीन अंक के लिए और समझना के पाँच प्रश्न पाँच अंक के लिए है ।)

संधि

दीर्घ संधि	गुण संधि	वृद्धि संधि	यण संधि	अयादिसंधि	व्यंजन संधि	विसर्ग संधि
समानाधिकार	गजेंद्र	एकैक	अत्यधिक	चयन	दिग्ग	निश्चय
धर्माधिकारी	परमेश्वर	मतैक्य	इत्यादि	नयन	सद्वाणी	मनोरथ
विद्यार्थी	महेन्द्र	सदैव	प्रत्युपकार	गायक	वाग्जल	दुर्गंध
विद्यालय	रमेश	महैश्वर्य	मन्वंतर	नायिका	सज्जन	निश्चित
कवींद्र	गणेश	परमौज	स्वागत	भवन	सदाचार	निष्कपट
गिरीश	महोत्सव	वनौषध	पित्राज्ञा	पावन	जगन्नाथ	नीरस
महीन्द्र	महोर्मि	सदैव	पित्रनुमति	नाविक	वाङ्मय	पुरोहित
पर्वतावली	सप्तर्षि		पितृपदेश		वागीश	
लघूत्तर	महर्षि				षड्दर्शन	
वधूत्सव	सूर्योदय					

नमूने के प्रश्न : इनमें से गुण संधि का उदाहरण है -

अ) पुस्तकालय आ) सदैव इ) गणेश ई) पर्यावरण

'धर्माधिकारी' इस संधि का उदाहरण है -

अ) गुण संधि आ) दीर्घ संधि इ) वृद्धि संधि ई) यण संधि

समास

अव्ययीभाव समास	कर्मधारय समास	तत्पुरुष समास	द्वंद्व समास	व्दिगु समास	बहुव्रीहि समास
आजन्म	सदधर्म	कार्य कुशल	श्रद्धा-भक्ति	पंचवटी	महात्मा

बेखटके	पीतांबर	शरणागत	सीता-राम	त्रिधारा	वीणापाणी
भरपेट	मुखचंद्र	नरश्रेष्ठ	पाप-पुण्य	चौराह	त्रिनेत्र
यथासंभव	करकमल	ग्रंथकार	सुबह-शाम	सतसई	लंबोदर
अनजाने	कनकलता	देशभक्ति	दाल-रोटी	नवरात्री	दशानन
प्रतिदिन	चंद्रमुख	जन्मांध	भला-बुरा	शताब्दी	घनश्याम
बेहोश	निलाकाश	राजवंश	राजा-रानी	त्रिदेव	नीलकंठ

इनमें द्विगु समास का उदाहरण है -

अ) पंचवटी आ) राजवंश इ) सीता-राम ई) सभाभवन

'राजवंश' इस समास का उदाहरण है -

अ) तत्पुरुष समास आ) द्वंद्व समास इ) द्विगु समास ई) कर्मधारय

कारक

क्र सं	कारक	विभक्ति
१.	कर्ता कारक	ने
२.	कर्म कारक	को
३.	करण कारक	से
४.	संप्रदान कारक	को / के लिए
५.	अपादान कारक	से
६.	संबंध कारक	का / की/के
७.	अधिकरण कारक	में, पर
८.	संबोधन कारक	अरे/हे/ओ/ह/ वाह

नमूने का प्रश्न : रिक्त स्थान में उचित कारक होगा ।

'गंगा' हिमालय _____ निकलती है ।

अ) को आ) का इ) से ई) पर

विराम चिह्न

१. अल्प विराम ---- (,)
२. अर्ध विराम ----- (;)
३. पूर्ण विराम ---- (|)
४. प्रश्न चिह्न -- (?)
५. विस्मयादिबोधक चिह्न----- (!)
६. योजक चिह्न--- (-)
७. उद्धरण चिह्न ----- (“ ” (' ')
८. कोष्ठक चिह्न --- ()
९. विवरण चिह्न----- (:-) / (:)

नमूने के प्रश्न :

गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया । वाक्य में प्रयुक्त विराम चिह्न है ।

- अ) प्रश्न वाचक आ) अल्प विराम इ) योजक ई) पूर्ण विराम

प्रेरणार्थक क्रिया शब्द

क्र.सं	धातु	क्रिया	प्र.प्रे.रूप	व्दि.प्रे.रूप
१	पढ	पढना	पढाना	पढवाना
२	कर	करना	कराना	करवाना
३	उठ	उठना	उठाना	उठवाना
४	सुन	सुनना	सुनाना	सुनवाना
५	समझ	समझना	समझाना	समझवाना
६	चल	चलना	चलाना	चलवाना
७	हँस	हँसना	हँसाना	हँसवाना
८	मिल	मिलना	मिलाना	मिलवाना
९	चिपक	चिपकना	चिपकाना	चिपकवाना
१०	ठहर	ठहरना	ठहराना	ठहरवाना
११	पकड	पकडना	पकडाना	पकडवाना
१२	लिख	लिखना	लिखाना	लिखवाना
१३	जीत	जीतना	जिताना	जितवाना
१४	छेड	छेडना	छिडाना	छिडवाना
१५	दौड	दौडना	दौडाना	दौडवाना
१६	ओढ	ओढना	ओढाना	ओढवाना
१७	लौट	लौटना	लौटाना	लौटवाना

१८	जग	जगना	जगाना	जगवाना
१९	देख	देखना	दिखाना	दिखवाना

क्र.सं	धातु	क्रिया	प्र.प्रे.रूप	व्दि.प्रे.रूप
२०	खेल	खेलना	खिलाना	खिलवाना
२१	बैठ	बैठना	बिठाना	बिठवाना
२२	दे	देना	दिलाना	दिलवाना
२३	भेज	भेजना	भिजाना	भिजवाना
२४	सो	सोना	सुलाना	सुलवाना
२६	धो	धोना	धुलाना	धुलवाना
२७	पी	पीना	पिलाना	पिलवाना
२८	सी	सीना	सिलाना	सिलवाना

नमूना के प्रश्न : इनमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है ।

अ) लिखना आ) लिखाना इ) लिखावट ई) लिखवाना

विलोम शब्द

शाम x सुबह	अंधकार x प्रकाश	जय x पराजय	शिक्षित x अशिक्षित
अच्छा x बुरा	अमृत x विष	सफल x असफल	लिखित x अलिखित
आगे x पीछे	आधार x निराधार	आदर x अनादर	मजबूत x कमजोर
आय x व्यय	परतंत्र x स्वतंत्र	निकट x दूर	आवश्यक x अनावश्यक
ऊपर x नीचे	वरदान x अभिशाप	सवाल x जवाब	अनुपयुक्त x उपयुक्त
भीतर x बाहर	स्थिर x अस्थिर	बढ़ना x घटना	विश्वास x अविश्वास
चढ़ना x उतरना	ईमान x बेईमान	संतोष x असंतोष	स्वस्थता x अस्वस्थता
खरीदना x बेचना	खबर x बेखबर	विदेश x स्वदेश	सदाचार x अनाचार
गरीब x अमीर	आदि x अंत	आयात x निर्यात	चैन x बेचैन
प्रसिद्ध x कुख्यात	होश x बेहोश	सजीव x निर्जीव	रोजगार x बेरोजगार

शांति x अशांति	सुंदर x कुरूप	पूर्व x पश्चिम	उपस्थिति x अनुपस्थिति
निराशा x आशा	उचित x अनुचित	बदबू x खुशबू	मुमकिन x नामुमकिन
दिन x रात	पाप x पुण्य	हँसना x रोना	स्वीकार x अस्वीकार
बडा x छोटा	प्रिय x अप्रिय	सजीव x निर्जीव	दुरुपयोग x सदुपयोग

नमूने का प्रश्न : 'मजबूत' का विलोम शब्द है ।

अ) मजबूर आ) कोमल इ) कमजोर ई) मुलायम

लिंग

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
नौकर	नौकरानी	शेर	शेरनी	मोर	मोरनी	श्रीमान	श्रीमती
भाग्यवान	भाग्यवती	दुबला	दुबली	कुत्ता	कुतिया	साहब	साहिबा
स्वामी	स्वामिन	ठाकुर	ठकुराइन	मयूर	मयूरी	भाई	बहन
भैंसा	भैंस	पंडित	पंडिताइन	लेखक	लेखिका	पति	पत्नी
नर	नारी	आदमी	औरत	हाथी	हथिनी	बाप	माँ
मालि	मालकिन	सेवक	सेविका	कवि	कवयित्री	पुरुष	महिला
बेटा	बेटी	बालक	बालिका	युवक	युवती	बूढा	बूढी

नमूने का प्रश्न : 'लेखक' का अन्यलिंग शब्द है ।

अ) लेखकी आ) लेखिका इ) कवि ई) कवयित्री

वचन

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
आँख	आँखें	चीज़	चीज़ें	अध्यापिका	अध्यापिकाएँ
बहन	बहनें	कुत्ता	कुत्ते	माता	माताएँ
पुस्तक	पुस्तकें	केला	केले	लता	लताएँ
सड़क	सड़के	कौआ	कौए	नौका	नौकाएँ
पिता	पिता	गधा	गधे	कला	कलाएँ
बात	बातें	बेटा	बेटे	कविता	कविताएँ
पर्दा	पर्दे	लड़की	लड़कियाँ	थाली	थालियाँ
कोशिश	कोशिशें	खबर	खबरें	किताब	किताबें
गली	गलियाँ	प्रति	प्रतियाँ	गुड़िया	गुड़ियाँ
योजना	योजनाएँ	कला	कलाएँ	व्यवस्था	व्यवस्थाएँ

कहानी	कहानियाँ	उपाधि	उपाधियाँ	कपडा	कपड़ें
याद	यादें	पैसा	पैसे	चादर	चादर
घर	घर	परदा	परदें	बात	बातें
लिफाफा	लिफाफें	कमरा	कमरे	रेवडी	रेवडियाँ
पेड	पेड	फल	फल	रुपया	रुपए

नमूने का प्रश्न : 'नौका' शब्द का अन्यवचन है ।

अ) नौकाएँ आ) नाव इ) नाविक ई) नौकाओं

मुहावरे

१. अंगूठा दिखाना = देने से स्पष्ट इन्कार करना
२. अंगारे उगलना = क्रोध में कठोर वचन बोलना
३. टस से मस न होना = विचलित न होना
४. पौ फटना = प्रभात होना
५. अकल का अंधा = मूर्ख
६. आँखें दिखाना = धमकाना, डराना
७. आँखे चुराना = अपने आप को छिपाना
८. आस्तीन का सँप = कपटी मित्र
१०. कान भरना = चुगली करना
११. अपना उल्लू सीधा करना = स्वार्थ पूरा करना
१२. आग बबूला होना = अत्यंत क्रोधित होना
१३. कमर कसना = तैयार होना
१४. दाल न गलना = सफल न होना
१५. छक्के छुड़ाना = बुरी तरह हराना

नमूने का प्रश्न : 'टस से मस न होना' इस मुहावरे का अर्थ है ।

अ) शोर न मचाना आ) हानी पहुँचाना
इ) बहुत खुश होना ई) विचलित न होना

1. छुट्टि के लिए आवेदन पत्र

प्रेषक,

अलिया फिरदोस
दसवीं कक्षा
रोठरी हैस्कूल मुंडगोड
सिरसी शैक्षणिक जिल्ला

सेवा में,

प्रधानाध्यापक
रोठरी हैस्कूल मुंडगोड
सिरसी शैक्षणिक जिल्ला
महोदय,

विषय :- छुट्टि के लिए पत्र

उपर्युक्त विषयानुसार आपसे सविनय निवेदन है कि मैं अपने भाई कि शादि में शामिल होने के लिए बेंगलूर जा रहा हूँ । इसलिए मैं तीन दिन तक स्कूल में उपस्थित नहीं रह पाऊंगा । मुझे 8 - 8 - 2018 से 11- 8 - 2018 तक तीन दिन की छुट्टि प्रदान करने कि कृपा करें।

धन्यवाद के साथ

स्थान. : मुंडगोड

दिनांक. : 7 - 8 - 2018

भवदीय

XXXXXX

(अलिया फिरदोस)

2. पिता के नाम पत्र

प्रेषक,

रजत एस राठोड

नं: 33 मुंडगोड - 581349

दिनांक. : 03 - 03 - 2018

पूज्य पिताजी,

सादर प्रणाम ।

मैं यहाँ सकुशल हूँ । आशा है कि आप भी सकुशल होंगे। मेरी पढाई अच्छी तरह चल रही है । इस साल हमारे विद्यालय में शैक्षणिक पर्यटन का आयोजन किया गया है। उसमें मैं भी भाग लेना चाहता हूँ । इसलिए आप मुझे इसकी अनुमति देते हुए रु 500 भेजने की कृपा करें । माताजी को मेरा प्रणाम कहना । पत्र का उत्तर दीजिए ।

आपका प्रिय पुत्र

रजत एस राठोड

सेवा मे,

श्री संजयकुमार जी राठोड

कुर्वेपु नगर तावरेकेरे

बेंगलूरु दक्षिण - 562130

3. प्रमाण पत्र के लिए पत्र.

दिनांक :- 05/06/2018

प्रेषक,

रचित एस राठोड
नौवीं कक्षा, 'बि,विभाग
सरकारी हाईस्कूल, बाचेनहट्टी,
मागडी तहसिल, रामनगर जिला - 562120

सेवा में,
प्रधानाध्यापकजी,
सरकारी हाईस्कूल, बाचेनहट्टी,
मागडी तहसिल, रामनगर जिला - 562120

महोदय,

विषय : प्रमाण पत्र के लिए पत्र

आपसे निवेदन है कि मेरे पिताजी का तबादला मैसूर में हो गया है। उनके साथ मुझे भी जाना होगा। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे नौवीं कक्षा का उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, तथा अंक पत्र देने की कृपा करें।

धन्यवाद सहित

स्थल :- बाचेनहट्टी.

दिनांक :- 05/06/2018

आपका आज्ञाकारी छात्र
रचित एस राठोड

निबंध लेखन

इंटरनेट वरदान है या अभिशाप

भूमिका :-

आज का युग इंटरनेट का युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इंटरनेट का असर पड़ा है। इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कम्प्यूटरों का अंतर्जाल है जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गाँव का सा छोटा हो गया है।

उपयोग एवं क्षेत्र. :-

इंटरनेट के उपयोग से इंसान की सोच बढ़ गयी है और उन्होंने बदली तकनीकी के कारण जिंदगी के बदले नज़रिए भी बढ़ा दिया है। पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो चिट्ठी या दूरभाषा द्वारा ही करना पड़ता था। किंतु आज इंटरनेट के द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है।

इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार और सूचना बंद हो जाता है। इंटरनेट द्वारा घर बैठे - बैठे खरिदारी कर सकते हैं। कोई भी बिल भर सकते हैं। इससे श्रम और समय दोनों बचा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर परस्पर विचार विनिमय कर सकते हैं।

वरदान और अभिशाप :-

इंटरनेट हमारे लिए एक वरदान है। इसके जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष यान, विज्ञान आदी। यहाँ तक की देश के रक्षादलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है।

इंटरनेट एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पैरसी, बैंकिंग फ्राड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसैटिंग, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी इंटरनेट की बाहों की पाश में फंसे हुए हैं। इससे वख्त का दुरुपयोग होता है। और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर सकते हैं।

उपसंहार :-

आज इंटरनेट आधुनिक जीवनशैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इंटरनेट से लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं। इसलिए इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। सोच समझकर इसका उपयोग करना चाहिए।

स्वच्छ भारत अभियान

भूमिका :-

स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक विशाल जन आंदोलन है जो की पूरे भारत में सफाई को बढ़ावा देता है। इस अभियान को 2019 तक एक स्वच्छ भारत का लक्ष्य रखते हुए 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गाँधी की 145 वीं जन्म दिन के शुभ अवसर पर शुरू किया गया था। जिसकी शुरुवात प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी द्वारा किया गया। पूरे भारत में सफाई के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया है। ये अभियान केवल सरकार का कर्तव्य नहीं है बल्कि राष्ट्र को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी इस देश के सभी नागरिकों पर है।

सफाई का महत्व / उद्देश्य

- 1, भारत में खुले में मल त्याग की व्यवस्था का जड से निकालना।
- 2, अस्वस्थ शौचालयों को बहने चले शौचालयों में बदलना।
- 3, हाथों से मल की सफाई करने की व्यग्रता को हटाना।
- 4, लोगों को स्वच्छता के बारे में जागृत करना।
- 5, सार्वजनिक स्वच्छता और साफ सफाई के कार्यक्रम से लोगों को जोड़ना।
- 6, साफ-साफाई के से संबंधीत सभी व्यवस्था को नियंत्रित रखना

समय का महत्व

प्रस्तावना ; समय अनमोला रत्न है। समय ही जीवन है। हमारा जीवन इसी समय से बना है। समय के नष्ट हो जाने से जीवन भी विनष्ट होजाता है। खोया हुआ समय दुबार नहीं आता | इसलिए समय के महत्व को समझना चाहिए।

“समय का सदुपयोग का मतलब है, सही समय पर सही काम करना “ | उपयुक्त समय पर अपना काम निपटानेवाले वास्तव में बुद्धिमान होता है और वह अपना जीवन सार्थक बना लेता है | जो समय को नष्ट करता है उसे समय ही नष्ट कर देता है। छात्रों को बेकार में समय नहीं गवांनना चाहिए | परिश्रम का अच्छा परिणाम पाने के लिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए नहीं तो पछताना होगा | खोया हुआ समय दुबारा लौटकर नहीं आता | अधिक लोगों ने समय को ही सबसे बड़ा धन माना है पर समय धन से अधिक कीमती है। इसलिए समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। |

उपसंहार : वास्तव में समय एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है | इस कारण से हम सबको समय की गंभीरता को समझना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए |

नागरिक के कर्तव्य

नागरिक का अर्थ : किसी सवतंत्र राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्ति को नागरिक कहा जाता है |

नागरिक और राष्ट्र : प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिक को सुख - शांति से जीवन बीतने के लिए कुछ अधिकार और कर्तव्यों को प्रधान करता है | हम सब भारत देश के नागरिक हैं | भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है | भारत का संविधान अपने नागरिकों को 6 मूलभूत अधिकार और कुछ कर्तव्यों को दिया है | नागरिक इन अधिकारों का सदुपयोग करना चाहिए और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए

नागरिक के कर्तव्य : भारत का प्रत्येक नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए

- * देश के प्रति गौरव का भाव रखना एवं देश की एकता और अखंडता को कायम रखना |
- * राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान , राष्ट्रीय त्योहार का आधार करना चाहिए |
- * अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना |
- * समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना
- * देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना
- * अपनी संस्कृति और गौरवशाली परम्परा का सम्मान करना है, संविधान के नियमों का पालन भी करना चाहिए |

उपसंहार :

कर्तव्य और अधिकार नागरिकता की गाड़ी के दो पहिए हैं | दोनों के सन्तुलन से ही सही सफल नागरिकता है | आज के बच्चे कल के नागरिक हैं | इन कर्तव्यों का पालन करने से हम सब का हित होगा और देश का कल्याण भी होगा |

अतिरिक्त प्रश्न

I. अनुरूपता

- 1) वसीयत : नाटक :: चित्रलेखा : उपन्यास
- 2) शत-शत : द्विरुक्ति :: हरे-भरे : युग्म शब्द
- 3) बायें हाथ में : न्याय पताका :: दाहिने हाथ में : ज्ञान का दीप
- 4) हस्त : हाथ :: पताका :: ध्वज
- 5) गिल्लू : महादेवी वर्मा :: ईमानदारों के सम्मेलन : हरिशंकर परसाई
- 6) ईमानदारों के सम्मेलन में : व्यंग्य साहित्य :: गिल्लू : रेखाचित्र
- 7) पं.राजकिशोर : मानवीय व्यवहार :: बसंत : ईमानदार
- 8) सुकृति : अच्छे कार्य :: परिहर : त्यागना
- 9) मैसूर : जगमोहन राजमहल :: श्रवण बेलगोल : गोमटेश्वर की मूर्ति
- 10) गोलगुंबज : वास्तुकला :: बेंलूर हलेबीड की मूर्तियाँ : शिल्पकला
- 11) अभिनव मनुष्य : रामधारी सिंड :: मातृभूमि : भगवती चरण वर्मा
- 12) चाय : गरम :: बर्फ : ठंडा

II. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. :

- 1) भारत माता के हाथों में क्या है ?
भारत माता के एक हाथ में न्याय-पताका दूसरे हाथ में ज्ञान-दीप है।
- 2) भारत के खेत कैसे हैं ?
भारत के खेत हरे-भरे हैं।
- 3) भारतभूमि के अंदर क्या-क्या भरा हुआ है ?
भारतभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है।
- 4) सुख - संपत्ति, धन - धाम को माँ कैसे बाँट रही है ?
सुख - संपत्ति, धन - धाम को माँ मुक्त-हस्त से बाँट रही है।
- 5) लेखक चीजें खरीदने कहाँ गये थे ?
लेखक चीजें खरीदने चौके गये थे।
- 6) लेखक का जी क्यों ललचा उठा ?
गुलाब रंग के सेब को देखकर जी ललचा उठा।
- 7) टोमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है ?
टोमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है।

8) स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है ?

स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है ।

9) रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी ?

रोज एक सेब खाने से डॉक्टरों की जरूरत नहीं होगी ।

10) गिलहरी का बच्चा कहाँ पडा था ?

गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संघि में पडा था ।

11) लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया ?

लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेन्सिलिन का मरहम लगाया ।

12) गिलहरी का लघु गात किसके भीतर बंद रहता था ?

गिलहरी का लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता था ।

13) गिलहरि का प्रिय खाद्य क्या था ?

गिलहरि का प्रिय खाद्य काजू था ।

14) लेखिका ने किस कारण से अस्पताल में रहना पडा ?

लेखिका ने मोटर दुर्घटना के कारण से अस्पताल में रहना पडा था ।

15) गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था ?

गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था ।

16) गिलहरी की समाधि कहाँ बनायी गयी है ?

गिलहरी की समाधि सोनजुही की लता के नीचे बनायी गयी है ।

17) मुखिया को किसके समान रहना चाहिए. ?

मुखिया को मुख के समान रहना चाहिए।

18) दया किसका मूल है ?

दया धर्म का मूल है।

19) पाप का मूल क्या है ?

पाप का मूल अभिमान है।

20) तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है ?

तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या, विनय और विवेक है।

21) इंटरनेट का अर्थ क्या है?

इंटरनेट अनगिनित कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है।

22) इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है?

इंटरनेट - बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है।

23) समाज के किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है?

समाज में चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है।

24) इंटरनेट. -- क्रांति का असर किस पर पडा है?

इंटरनेट का असर बड़े-बूढ़े से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर पडा है।

25) लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे ?

लेखक एक सौ पचास रुपये बचाने के लिए दूसरे दर्जे में सफर करना चाहते थे।

26) स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे ?

स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे।

27) वर्षों से सक्सेना के परिवार में कौन काम कर रहा है ?

वर्षों से सक्सेना के परिवार में साधोराम काम कर रहा है ।

28) रोबोनिल की मुलाकात किससे हुई ?

रोबोनिल की मुलाकात रोबोदीप से हुई ।

29) शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम लिखिए ?

शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम झबरू था ।

30) वैज्ञानिक लेखक का नाम लिखिए ?

वैज्ञानिक लेखक का नाम आइज़क आसिमोव है ।

31) बिछेंद्री को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने कौन - सा पदक देकर सम्मान किया ?

बिछेंद्री को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने स्वर्ण - पदक देकर सम्मान किया ।

32) बिछेंद्री पाल को कौन - सा गौरव प्राप्त हुआ है ?

बिछेंद्री पाल को पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार गौरव प्राप्त हुआ है।

33) बिछेंद्री ने क्या निश्चय किया ?

बिछेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जान अच्छा लगता था ।

34) सूर - श्यम पद के रचयिता कौन है ?

सूर - श्यम पद के रचयिता सूरदास है।

35) यशोदा और नंद का रंग कैसा था ?

यशोदा और नंद का रंग गोरा था ।

36) बाल कृष्ण का रंग कैसा था ?

बाल कृष्ण का रंग काला था ।

37) कर्नाटक में कौन-कौन से जलप्रताप है ?

कर्नाटक में जोग, अब्बी गोकक, शिवनसमुद्र आदि जलप्रताप है।

- 38) किस नगर को सिलिकान सिटी कहा जाता है ?
बेंगलूरु नगर को सिलिकान सिटी कहा जाता है।
- 39) कर्नाटक की दक्षिण दिशा में कौन सी पर्वतमालाएँ शोभायमान हैं ?
कर्नाटक की दक्षिण दिशा में नीलगिरी की पर्वतमालाएँ शोभायमान हैं ।
- 40) हमें किस उम्र में अच्छी आदतें डालनी हैं ?
हमें छोटी उम्र में अच्छी आदतें डालनी हैं ।
- 41) बच्चों की तारीफ किसने की ?
बच्चों की तारीफ कलेक्टर साहब ने की ।
- 42) किससे डरकर नौका पार नहीं होती ?
लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती ।
- 43) किसकी मेहनत बेकार नहीं होती ?
कोशिश करनेवालों की कभी मेहनत बेकार नहीं होती।

II. दो या तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए :

- 1) छलनी से क्या - क्या कर सकते हैं ?
छलनी से दूध और चाय छान
- 2) बसंत राजकिशोर से दो पैसे लेने से क्यों इनकार करता है ?
बसंत राजकिशोर से दो पैसे लेने से इनकार करता है क्योंकि-उसे भीख समझता था। भीख नहीं लेना चाहता था।
- 3) मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। कैसे ?
मुखिया को मुख के समान होना चाहिए क्योंकि मुँह खाने - पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन-पोषण करता है। तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करें लेकिन उसका फल सभी में बाँटे ।
- 4) मनुष्या को हंस की तरह क्या करना चाहिए. ?
सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़, चेतन और गुण--दोष से मिलाकर बनाया है। अर्थात्, इस संसार में अच्छे-बुरे समझ - नासमझ के रूप में अनेक गुण - दोष भरे हुए हैं, लेकिन हंस रूपी साधु लोग पानी रूपी विकारों को छोड़कर दूध रूपी अच्छे गुणों को अपनाते हैं।
- 5) चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलिगेट ने क्या सुझाव दिया ?

चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलिगेट ने सुझाव दिया की -- "देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारना चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिये, तो दूसरी दस फीट दूर। तब चप्पलें चोरी नहीं होतीं । एक ही जगह जोड़ी होगी,तो कोई. भी पहन लेगा । मैंने ऐसा ही किया था।"

SSLC मार्च / अप्रैल 2018 प्रश्न और आदर्श उत्तर पत्रिक

न संख	सही उत्तर	अंक
खण्ड - क (गद्य, पद्य और पूरक वाचन)		
I. 1.	सिंगफो आदिवासी कहाँ के निवासी थे ? उत्तर : पूर्वोत्तर भारत के निवासी थे ।	1
2.	'समय की पहचान' कविता में कवि ने किस पर विश्वास करने को कहा है ? उत्तर : आत्मा / अपने आप पर विश्वास करने को कहा है ।	1
3.	इंटरनेट बैंकिंग से क्या लाभ है ? उत्तर : दुनिया में किसी भी जगह चाहे जितनी रकम भेजी जा सकती है / खरीदारी कर सकते हैं / बिल भर सकते हैं ।	1
4.	कलाम और जलालुद्दीन किस विषय पर बात करते थे ? उत्तर : आध्यात्मिक विषय पर ।	1
न संख	सही उत्तर	अंक
5.	पवन का ताप किसके हुक्म पर चढ़ता-उतरता है ? उत्तर : मानव के हुक्म पर ।	1
6.	परसाई जी को सम्मेलन में क्यों बुलाया गया था ? उत्तर : सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए/ ईमानदारों को प्रेरणा देने के लिए।	1

II. 7. सही वाक्यांशों को जोड़कर लिखिए :

‘क’

अ) सेब

आ) मकान की छत

इ) रोबोनिल

ई) बलराम

v) भोला-भाला

बुद्धिमान रोबोट

‘ख’

i) चुगलखोर

ii) हाथी के पैर जैसे

iii) साधारण रोबोट

iv) रंगदार, गुलाबी

vi)

vii) मछली की पीठ जैसी ।

उत्तर :

अ) iv) रंगदार, गुलाबी

आ) vii) मछली की पीठ जैसी

इ) vi) बुद्धिमान रोबोट

ई) i) चुगलखोर ।

1

1

1

1

प्रश्न संख्या	सही उत्तर	अंक
---------------	-----------	-----

III.	अनुरूपता :	
8.	मेरा बचपन : आत्मकथा : : ईमानदारों के सम्मेलन में :	
	उत्तर : व्यंग्य रचना	1
9.	महादेवी वर्मा : प्राणी दया की प्रेरणा : : पंडित राजकिशोर :	
	उत्तर : परोपकार की प्रेरणा / मानवीयता की प्रेरणा	1
10.	तेनजिंग नोर्गे : एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम पुरुष : : जुंके ताबी :	
	उत्तर : एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला	1
11.	पाप का मूल : अभिमान : : धर्म का मूल :	
	उत्तर : दया ।	1
IV.	दो या तीन वाक्यों में उत्तर :	
12.	'कश्मीरी सेब' पाठ से आपको क्या सीख मिलती है ?	
	उत्तर : दुकानदार से सामान खरीदते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए । हमारी उपेक्षा धोखा होने की संभावना को बढ़ाता है ।	2
13.	कलाम जी का बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में कैसे बीता ?	
	उत्तर : कलाम के पिता ऐशो-आराम की चीजों से दूर रहने वाले, आडंबरहीन व्यक्ति थे । घर पर सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सरलता से उपलब्ध थीं ।	2
14.	सोशल नेटवर्किंग साइट्स का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ?	
	उत्तर : देश-विदेश के लोगों क रहन-सहन, वेशभूषा, खान-पान, सस्कृति-कला आदि का अनुकरण हो रहा है ।	2

प्रश्न संख्या	सही उत्तर	अंक
---------------	-----------	-----

15. बिछेंद्री पाल का बचपन कैसे बीता ?

उत्तर :

बचपन में बिछेंद्री को रोज 5 कि. मी. पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था । वे कठोर परिश्रम करती थीं । सिलाई का काम सीख कर पैसे जुटाए । यह उनकी पढ़ाई के खर्च में काम आया ।

2

16. 'बाल-शक्ति' टोली ने गाँव की सफाई के लिए क्या-क्या काम किया ?

उत्तर :

गाँव के गड्ढों को मिट्टी से ढँका / भरा । गाँव का कूड़ा डालने के लिए निश्चित जगह बनाकर, सबको वहीं कूड़ा डालने को कहा । गाँव को हरा-भरा रखने के लिए चारों तरफ पेड़-पौधे लगाए ।

2

17. दिनकर जी ने आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कैसे किया है ?

उत्तर :

आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पा ली है । उसने जल, विद्युत, भाप, वायु पर अपना नियंत्रण बना लिया है । वह नदी, पर्वत, सागर सबको समान रूप से लाँघ सकता है ।

2

18. समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए ?

उत्तर :

समय महत्वपूर्ण और उपयोगी है । अपना काम बिना टाले उसी समय पूरा करना चाहिए । आलस्य त्याग कर, समय को अमूल्य धन मानकर कार्य करने से जीवन सफल होता है ।

2

19. कृष्ण के क्रोध को यशोदा कैसे शांत करती है ?

उत्तर :

यशोदा कहती है — बलराम तो जन्म से ही धूर्त है, चुगलखोर है । वह गोधन की कसम खाकर कहती है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो ।

2

प्रश्न संख्या	सही उत्तर	अंक
20.	<p>रोबोनिल क्या-क्या काम करता था ?</p> <p>उत्तर :</p> <p>सुबह नाश्ता कराने, मेहमानों के स्वागत में दरवाजा खोलने, घर के बच्चों को कहानियाँ सुनाने, उनके होमवर्क में मदद करने तथा सक्सेना जी के वर्ड प्रोसेसर पर काम करने के अलावा उनके कुत्ते को घुमाने का काम भी करता था ।</p> <p>(कोई तीन अंश)</p>	2
21.	<p>शनि ग्रह का वायुमंडल किन गैसों से बना है ?</p> <p>अथवा</p> <p>सौरमंडल में शनि ग्रह का क्या स्थान है ?</p> <p>उत्तर :</p> <p>हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया गैसों से बना है ।</p> <p>अथवा</p> <p>सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है । शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है ।</p>	2
22.	<p>झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है ?</p> <p>अथवा</p> <p>मीना मेडम ने बच्चों को क्या संदेश दिया ?</p> <p>उत्तर :</p> <p>अपमानित होना पड़ता है । व्यक्ति के विकास मार्ग में बाधक होता है । व्यक्तित्व कुंठित होता है । लोगों का उस पर से विश्वास उठ जाता है । उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं । (कोई 3 अंश)</p> <p>अथवा</p> <p>मीना मेडम ने बच्चों से कहा — आज से नहीं, अभी से आप कर्तव्यों का पालन शुरू कीजिए । इससे आपका हित तो होगा ही, देश का कल्याण भी होगा ।</p>	2

प्रश्न संख्या	सही उत्तर	अंक
---------------	-----------	-----

V.

पान, स ~~स~~ चार वाक्यों में लिखिए :

23. लेखिका की गैरहाजरी में गिल्लू ने दिन कैसे बिताए ? स्पष्ट कोजिए ।

उत्तर :

गिल्लू अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाता था । लेखिका के कमरे का दरवाजा खुलते ही वह अपने झूले से उतरकर दौड़ता फिर किसी दूसरे को देखकर उदास हो वापस अपने घोंसले में जा बैठता ।

3

24. बसंत की ईमानदारी का परिचय सोदाहरण दीजिए ।

उत्तर :

बसंत गरीब किंतु स्वाभिमानी लड़का था । पंडित राजकिशोर को छलनी बेचकर उनका नोट भुनाने गया । वह मोटर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया । फिर भी होश आते ही अपने भाई को पंडित राजकिशोर के पैसे लौटाने भेजा ।

3

25. 'मातृभूमि' कविता में प्रकृति सौंदर्य कैसे वर्णित है ?

उत्तर :

मातृभूमि के हरे-भरे सुहाने खेत प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं । यहाँ फल-फूलों से युक्त बाग-बगीचे तथा वन हैं । इस धरती में खनिजों की अपार सम्पदा है ।

3

26. निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए :

तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक ।

साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसो एक ॥

उत्तर :

मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है, तब उसकी विद्या, विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं । राम पर भरोसा करने वाला साहसो, सुकृतवान और सत्यव्रती बनता है ।

3

प्रश्न
संख्या

सही उत्तर

अंक

VI.

27.

चार या **पाँच** वाक्यों में उत्तर :

कर्नाटक की शिल्पकला का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए ।

अथवा

कन्नड़ भाषा एवं संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की देन के बारे में लिखिए ।

उत्तर :

कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है । बादामी, अयहोले, पट्टदकल्लु के मंदिरों में उत्कृष्ट शिल्पकला देखी जा सकती है । बेलूरु, हलेबीडु, सोमनाथपुर मंदिर की पत्थर की मूर्तियाँ बड़ी सजीव लगती हैं । ये हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की याद दिलाते हैं । श्रवणबेलगोल की एक शिला प्रतिमा सुंदर शिल्प का उदाहरण है ।

अथवा

- * बसवण्णा, अक्कमहादेवी, अल्लमप्रभु, सर्वज्ञ आदि सत कवियों के वचन प्रेम, दया और धर्म की सीख देते हैं ।
- * पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति और सदाचार के गीत गाए हैं ।
- * पंप, रन्न, पोन्न, कुमारव्यास, हरिहर आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध किया है ।
- * आधुनिक काल के आठ दिग्गज साहित्यकारों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर कन्नड़ भाषा, संस्कृति और कर्नाटक के गौरव को बढ़ाया है ।

28.

निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए :

असफलता

.....

.....

..... भागो तुम ।

अथवा

मुखिया

..... विवेक ॥

4

प्रश्न संख्या	सही उत्तर	अंक
---------------	-----------	-----

उत्तर :

असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो ।
क्या कमी रह गयी, देखो और सुधार करो ।
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम ।
संघर्ष का मैदान छोड़कर, मत भागो तुम ॥

अथवा

मुखिया मुख सो चाहिए, खान-पान को एक ।
पालै-पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ॥

खण्ड - ख
(व्याकरण)

4

VII. 29.

‘नीति’ शब्द का अन्य वचन है —

उत्तर : (A) नीतियाँ

1

‘अमीर’ का विलोम शब्द है —

30. **उत्तर :** (C) गरीब

1

निम्न में से पुल्लिंग शब्द है —

31. **उत्तर :** (C) हाथी

1

‘परमौषध’ शब्द में संधि है —

32. **उत्तर :** (B) वृद्धि

1

गाड़ी आने देर है ।

33. इस वाक्य में उपयुक्त कारक होगा

—
उत्तर : (D) में

1

क्या तुम थक गई हो

34. इस वाक्य के लिए सही विराम चिह्न है

—
उत्तर : (A) प्रश्नवाचक

1

**प्रश्न
संख्या**

सही उत्तर

अंक

35. निम्न में 'द्वंद्व समास' का उदाहरण है
—
उत्तर : (B) रात-दिन
36. दिए गए शब्दों में 'प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया' का शब्द है
—
उत्तर : (D) सिखाना

खण्ड - ग

(रचना - अपठित गद्यांश, अनुवाद, पत्र-लेखन और निबंध)

VIII.

अपठित गद्यांश :

37. दूसरों को प्रायः सुख कैसे मिलता है ?
उत्तर : उन्हें दूसरों के जीवन का अनुसरण करने में सुख मिलता है ।
अंधानुकरण से क्या तात्पर्य है ?
उत्तर : अपनी ताकत को न पहचान कर दूसरों के पीछे निरुद्देश्य चलना अंधानुकरण है ।
38. सड़क के किनारे पड़े पत्ते कैसे हैं ?
उत्तर : कमजोर और निर्जीव थे ।
39. मनुष्य जीवन में ऊँचाइयों तक कैसे पहुँच सकता है ?
उत्तर : निज-बल से ।
- 40.

IX.

अनुवाद कन्नड या अंग्रेजी में :

41. एक सेब भी खाने लायक नहीं था ।
उत्तर :
ಒಂದು ಸೇಬು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
Not even a single apple was good to eat.
स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ ।
42. उत्तर :
ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತಿಯಾದ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು.
I received a grand welcome at the station.

प्रश्न संख्या	सही उत्तर	अंक
43.	कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में हैं । उत्तर : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.	1
44.	Sandalwood trees are large in numbers in Karnataka. तालाब में एक मछली तैर रही थी । उत्तर : ಕೆರೆೆಯಲ್ಲಿ / ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮೀನೊಂದು ಈಜುತಿತ್ತು.	1
X. 45.	A fish was swimming in the pond. अपने भाई की शादी का कारण देते हुए प्रधानाध्यापक के नाम छुट्टी पत्र लिखिए । अथवा शैक्षिक प्रवास के लिए पिता से 2,000 रुपए माँगते हुए उन्हें एक पत्र लिखिए । पत्र लेखन । उत्तर : औपचारिक पत्र : प्रेषक का पता और दिनांक पत्र पाने वाले का पता विषय व संबोधन पत्र का कलेवर समाप्ति । अथवा उत्तर : अनौपचारिक पत्र : प्रेषक का पता और दिनांक संबोधन और अभिवादन पत्र का कलेवर समाप्ति और पाने वाले का पता	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ 1
प्रश्न संख्या	सही उत्तर	अंक

XI. 46. दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर **15 - 20** वाक्यों में कोई **एक** निबंध लिखिए

क) जनसंख्या वृद्धि की समस्या

- * अर्थ
- * वृद्धि के कारण और परिणाम
- * नियंत्रण के उपाय
- * उपसंहार ।

ख) मेरा कर्नाटक महान

- * विषय प्रवेश
- * प्राकृतिक स्वरूप
- * विशेषता
- * उपसंहार ।

ग) इंटरनेट से लाभ

- * अर्थ
- * उपयोग
- * वर्तमान आवश्यकता
- * उपसंहार ।

निबंध :

उत्तर :

प्रस्तावना / विषय प्रवेश

विषय विस्तार

उपसंहार

भाषा का प्रयोग ।

$\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$
1
1

प्रतिदर्श प्रश्न-पत्र

Model Question Paper

Third Language Hindi [61 H]

10TH STANDARD

TOTAL MARKS - 80

खण्ड “ क ”

[गद्य, पद्य और पूरक वाचन]

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए :-

6 x 1 = 6

1. अब्दुल कलाम का बचपन कैसे बीता ?
2. बसंत राजकिशोर से बार-बार विनती क्यों कर रहा था ?
3. लेखक परसाई जी को कहाँ ठहराया गया ?
4. सब जानवरों की बात सुनकर दोस्तों ने क्या किया ?
5. परमाणु मनुष्य के कर्मों को देखकर क्यों काँपते हैं ?
6. समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है ?

II. 7. स्तम्भ ‘क’ के वाक्यांशों के साथ स्तम्भ ‘ख’ के सही वाक्यांशों को जोड़कर लिखिए :- 4 x 1 = 4

‘क’	‘ख’
अ. रोबोनिल	ईमानदारों की प्रशंसा
आ. ईमानदारों के सम्मेलन में	संत के गुण
इ. सिंगफो आदिवासी	कंप्यूटर विद
ई. हंस के समान	पूर्वोत्तर भारत
	मुखिया के गुण
	बेईमानी का पर्दाफाश
	बुद्धिमान रोबोट

III. प्रथम दो शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए :- 4 x 1 = 4

8. बसंत की सच्चाई : ईमानदारी की सीख :: गिल्लू : -----
9. ई-गवर्नेंस : प्रशासन का यथावत विवरण :: वीडियो काफ़ेस : -----
10. सेब बेचनेवाला : बेईमान निकला :: रेवडी बेचनेवाला : -----
11. मातृभूमि : प्रकृति का वर्णन :: सूर-श्याम : -----

IV. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए :-

11 x 2 = 22

12. कश्मीरी सेब पाठ से आपको क्या सीख मिलती है ?
13. गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजरी में दिन कैसे बिताए ?
14. नमाज के बारे में जैनुलाबदीन क्या कहते थे ?
15. व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है ?
16. रोबोनिल ने रोबोजीत को क्या समझाने की कोशिश की ?
17. गाँव की सफाई के लिए बालक क्या काम करते हैं ?
18. दिनकर जी ने ‘ अभिनव मनुष्य ’ को क्या संदेश दिया है ?
19. समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं ?
20. बाल कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता ?

21. सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौनसा है ? उसमें शनि का स्थान क्या है ?

अथवा

शनि ग्रह का निर्माण किस प्रकार हुआ है ?

22. गांधीजी ने सत्य के बारे में क्या कहा है ?

अथवा

नागरिकों के कोई तीन कर्तव्य बताइए।

V. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तीन या चार वाक्यों में लिखिए :-

4 x 3 = 12

23. बसंत स्वभिमानी और ईमानदार लडका था। कैसे ?
 24. दक्षिणी शिखर पर बछेद्री की चढाई का अनुभव लिखिए।
 25. मातृभूमि कविता में प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कैसे किया गया है ?
 26. निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए।
 राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार।
 तुलसी भीतर बाहिरौ, जो चाहसि उजियार ॥

VI. निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर पाँच या छः वाक्यों में लिखिए :-

2 x 4 = 8

27. कन्नड भाषा और संस्कृति के लिए साहित्यकारों की देन क्या है ?
 अथवा

कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला का परिचय दीजिए।

28. निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए :-

असफलता -----,
 -----।
 -----,
 ----- भागो तुम।

अथवा

दया धर्म -----।
 ----- घट में प्राण ॥

खण्ड "ख"

[व्याकरण]

VII. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार-चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एकमात्र सही उत्तर है। सही उत्तर चुनकर लिखिए :-

1 x 8 = 8

29. इनमें से गुण संधि का उदाहरण है -

- A. पुस्तकालय
 B. गणेश
 C. सदेव
 D. पर्यावरण

30. 'नौका' शब्द का अन्यवचन है -

- A. नौकाएँ
 B. नौकाओं
 C. नाव
 D. नाविक

31. इनमें प्रथम-प्रेरणार्थक क्रिया रूप है -
 A. लिखावट C. सुनाना
 B. चढाई D. बचना
32. 'मजबूत' का विलोम शब्द है -
 A. मुलायम C. कमजोर
 B. मजबूर D. कोमल
33. 'टस से मस न होना' मुहावरे का अर्थ है -
 A. बहुत खुश होना C. शोर न मचाना
 B. हानि पहुँचाना D. विचलित न होना
34. इनमें तत्पुरुष समास का उदाहरण है -
 A. त्रिदेव C. नील कमल
 B. राजवंश D. राजा-रानी
35. मैं अभी बाजार ---- भुना लाता हूँ। रिक्त स्थान में उचित कारक होगा -
 A. से C. ने
 B. को D. पर
36. गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिह्न है -
 A. प्रश्नवाचक C. विस्मयादि बोधक
 B. पूर्ण विराम D. अल्प विराम

खण्ड " ग "

[रचना - अपठित गद्यांश, अनुवाद, पत्रलेखन और निबंध]

- VIII. निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :-
 सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव है। मानव की जिज्ञासावृत्ति उसे पशुओं से भिन्न करती है। प्रकृति के रहस्यों को खोजने, उन्हें उपयोग में लाकर जीवन को सुखमय बनाने और ज्ञान विस्तार के मूल में उसकी जिज्ञासा ही है। अपनी जिज्ञासा से उसे यह लाभ मिलता है। मानव में एक विशेष गुण और है, वह है - सौंदर्यानुभूति। मानव सृष्टि के समस्त चराचरों में अपने इसी गुण से अच्छी और खराब वस्तुओं में भेद कर सकता है। अपने इस विवेक से ही मनुष्य ने ललित कलाओं का विकास भी किया है।

37. मानव पशुओं से कैसे भिन्न है ?
 38. जिज्ञासा से मानव को क्या लाभ है ?
 39. मानव का विशेष गुण क्या है ?
 40. अपने विवेक से मानव क्या कर सका है ?

- IX. निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद कन्नड या अंग्रेज़ी में कीजिए :-

1 x 4 = 4

41. बसंत और प्रताप गरीब थे।
 42. दुकानदार ने मुझसे क्षमा माँगी।
 43. गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू था।
 44. तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी।

X. 45. पर्यटन जाने के लिए अनुमति और पैसे माँगते हुए अपने पिताजी के नाम पत्र लिखिए। 4
अथवा
बहन की शादी के कारण तीन दिन की छुट्टी की मंजूरी के लिए पत्र लिखिए।

XI. 46. दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 15-20 वाक्यों में एक निबंध लिखिए। 4

- (क) समय का सदुपयोग
- प्रस्तावना
 - समय का महत्व
 - उपसंहार
- (ख) पर्यावरण की रक्षा
- प्रस्तावना
 - रक्षा के उपाय
 - उपसंहार
- (ग) आज की आवश्यकता : इंटरनेट
- अर्थ
 - लाभ और हानि
 - उपसंहार

शुभ कामनाओं के साथ
आप सब को
धन्यवाद